

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 371]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2024—पौष 10, शक 1946

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2024

क्र. 1560-2024-एक (1).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, सदस्य, मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव का त्याग-पत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2024 से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेशरिया, उपसचिव.